

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2017/ज्येष्ठ 11, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 89
No. 211]	DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2017/JYAISTHA 11, 1939	[N.C.T.D. No. 89

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय : शिक्षा का अधिकार षाखा

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मई, 2017

सं.फा. डी.ई. 23 (66)/आरटीई/2017/1336-1350.—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—(1) इन नियमों को दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (संशोधन) नियमावली 2017 कहा जायेगा ।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
- दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 में पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण के शीर्षक के अन्तर्गत भाग VII में नियम 21 के उप-नियम 2 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—
(ग) सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिये कक्षावार, विषयवार शिक्षण परिणाम तैयार, तथा
(घ) निर्धारित शिक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अभ्यास हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर
मार्शल एक्का, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION: RIGHT TO EDUCATION BRANCH**NOTIFICATION**

Delhi, the 31st May, 2017

No. F. DE. 23 (66)/RTE/2017/1336-1350.—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendments in the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called The Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 in Part VII under the heading of Curriculum and Completion of Elementary Education, for clause (c), in sub-rule 2 of rule 21, the following clauses shall be substituted, namely:—

“(c) prepare class-wise, subject-wise learning outcomes for all elementary classes; and

(d) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation to achieve the defined learning outcomes.”

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

MARCEL EKKA, Addl. Secy. (Education)